



जनपद महोबा में जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिये पुलिस अधीक्षक महोबा की नई पहल ।

जनसुनवाई के दौरान गूगल मीट से सीधे जुड़ेंगे थाने, पीड़ित की समस्या का होगा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ।

आज दिनांक 06.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा में नई पहल की शुरुआत की गयी है जिसका उद्देश्य पुलिस जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ित को उसकी समस्या से त्वरित समाधान दिलाना है ।

इसके लिये प्रत्येक दिवस जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट की जायेगी जिसमें जनपद के प्रत्येक थाने के दिवसाधिकारी जुड़े रहेंगे, इस दौरान जो भी फरियादी आयेंगे उनकी समस्याओं को सुना जायेगा, फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के जरिये थानों के दिवसाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जायेंगे, जिससे पीड़ित की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा सके।

इसके पर्यवेक्षण के लिये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसका पर्यवेक्षण स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा, इस ग्रुप में प्रतिदिन आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों को प्रेषित किया जायेगा, जिसके निस्तारण की आख्या इसी ग्रुप में उसी दिन सायं तक जांचअधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी।



बुजुर्ग विकलांग का सहारा बनी पुलिस अधीक्षक महोबा, पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान स्वयं उनके पास जाकर सुनी समस्या, जिसके निस्तारण के लिये सम्बन्धित को दिये निर्देश -

आज दिनांक 06.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई।

जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग जो विकलांग होने के कारण चल पाने में असमर्थ थे जो अपनी समस्या के समाधान हेतु पुलिस कार्यालय आये हुये थे, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं उनके पास जाकर उनकी समस्या गम्भीरता पूर्वक सुनी गयी, जिसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को मौके पर ही आदेशित किया गया।



जनपदीय पुलिस बल द्वारा होली एवं शब-ए-बारात पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **06.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत होलिका दहन के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा स्थानीय लोगों से वार्ता कर आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **96** ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 06.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस